

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
बौका-1

पत्र संख्या— 40
प्रेषक,

/ बाँका,

दिनांक- 13.1.20

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंड, बाँका-1

सेवा में,

सहायक पोस्टमास्टर / शाखा प्रबन्धक
डाक घर /

पु. ऑफ. पंडा, बाँ.

विषय:- राष्ट्रीय बचत-पत्र 3/5 वार्षिक सावधि जमा खाता/बैंक गारन्टी के सत्यापन के संबंध में।

महाशय.

आपके डाकघर/बैंक से निविदा कार्य हेतु श्री/पे0

ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ

के नाम से राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/3-5 वर्षीय सावधिक जमा पासबुक/बैंक गारन्टी निर्गत किया गया है तथा दिनांक को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बैंका-1 (Executive Engineer, RWD Works Division Banka-1) के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त (Pledged) है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

Sl. No.	Registration No.	Description of NSC/KVP 3-5 Years T.D./Bank Guarantee	Deposited Amount	Pledged Date
161	①	APC 35580400000 113 FD - No 35580300000 5293	3450000000	11/1/20

अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरणी के दशायि जमा राशि (Executive Engineer, RWD Works Division Banka-I) के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हैं तथा प्रतिज्ञिप्त का सत्यापन कर यथाशीघ्र वापस करने की कृपा की जाय।

Above said FD is in name of M/S
Balaji Construction for the three years.
FD is Pledge against ECRWD
WORK AIO DIV Banka 1

विष्णुवास भाजन

कार्यपालक अधिकारी
ग्रा.का.वि.कार्यप्रमंडल
बोक्सा-1

बॉका-1
9/10/20



13/01/2020

opened in favour of E.E.R.W.D. work Division Banka-1 as per letter no. dttd - 11/01/2020

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice



M/S BALAJEE CONSTRUCTION	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35580300005293
AT BANGAMA PO RANGA	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1301202754
PS BALHAR DIST BANKA	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	DXS001294
813104	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35580400000113
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	BANKABIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
नामांकन / Nomination	N	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.		
पैन नंबर / PAN No.	AAIFB2783M	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF	
लियन चिह्नित / Lien Marked	N	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
345000	13-01-2020	6.25	36 Months 0 Days	13-01-2023	415547

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :	2. Automatic Renewal Clause :
i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं.	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज :	6. Premature Withdrawal Clause :
i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगनेगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कई रेट से 1% कम.	i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
ii). 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगनेगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कई रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature